







781, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh - 160 002 INDIA Ph.: 0172-4680800, 2638781

Fax: 0172-2652242

E-mail: corporate@indswift.com CIN No.: L24230CH1986PLC006897

Ref.:ISL:CH:2022:

The President, Corporate Relationship Department, Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai 400 001

Date: 25th August, 2022

The Vice President, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/2, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051

BSE Scrip Code: 524652

NSE Symbol: INDSWFTLTD

Subject: - Public Notice In Respect Of Information Regarding Holding of Annual General Meeting of the Company through Video Conference (VC) / Other

Audio-Visual Means (OAVM)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to General Circular No. 2/2022 dated 5th May, 2022 read with circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by MCA, read over with Regulation 30 and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of newspaper notice published on 25th August, 2022 in "The Financial Express" and "Jansatta" in respect of information regarding holding of the 36th AGM of the Company through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

The same are also available on the Company's website at www.indswiftltd.com.

Further, the requisite information as per Regulation 30 read with Para No. 12 of Para A of part A of Schedule III of SEBI LODR Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated September 9, 2015 is as under:-

- 1. Date of Notice- The Public Notice has been published in the Newspapers "The Financial Express" and "Jansatta" on 25th August, 2022.
- 2. Brief details viz. agenda (if any) proposed to be taken up, resolution to be passed, manner of approval proposed etc .:- This is a Public Notice pursuant to MCA Circular dated 5th May, 2022 read with circular dated 5th May, 2020 on holding of AGM of the Company through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means (OAVM").

You are requested to kindly take the same on record.

Ind. Area Phase-II

Thanking You

For IND-SWIFT LIMITED

COMPANY SECRETAR

Encl.- Newspaper Publications



FINANCIAL EXPRESS

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the LLP from one state to another

Before the Central Government Registrar of Companies, Delhi & Haryana In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of

TMB BATTERY INDIA LLP having its registered office at D-30, F.F. Office No. 101, Shidhart Complex, Laxmi Nagar, Delhi-110092

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to the General Public that

the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, New Delhi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019 within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner (LLP) at its registered office at the address mentioned above. For TMB BATTERY INDIALLP

Place : New Delhi Date: 25.08.2022

> Before the Central Government Registrar of Companies, Delhi

Li Leigiang

DIN: 07889544

Designated Partner

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009.

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3)

In the matter of LIVNAT ENGINEERING LLP having its registered office at 55, 22nd Floor, Lane No.2 Westend Marg, Saidulajab, Near Saket Metro Station, New Delhi -110030 ...Petitione

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi, under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 for seeking permission to change its Registered office from the NCT of "Delhi" to the Union Territory of "Chandigarh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Delhi, within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above. For and on behalf of

LIVNAT ENGINEERING LLP Place: Delhi **NIV PINTOW** Date: 24.08.2022 Designated Partner DPIN: 09060751 Address: Viegas Residency H. No. 204/A Kindlebag, Canacona, Goa- 403702

Form No. INC-26

{Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014} Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Director, Northern Region, New Delhi the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

Before the Central Government, Regional

ELECTRACON PARADISE LIMITED (CIN: U31401DL2012PLC239140) having its Registered Office at A-7, GROUND FLOOR MAYAPURI INDUSTRIAI AREA PHASE-II, NEW DELHI-110064

In the matter of

.....Applicant Company / Petitione **NOTICE** is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under |Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed a the Extra Ordinary General Meeting held on 08th August, 2022 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana" . Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change/shifting of the registered office of the petitioner company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its Registered Office at the address

A-7. GROUND FLOOR MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE-II, NEW DELHI-110064 For & on behalf of Applicant **ELECTRACON PARADISE LIMITED**

mentioned below:-

SUBHASH CHANDER NARANG Date: 24.08.2022

DIN: 0072924 Place : New Delhi

S. E. RAILWAY - TENDER E-Tender Notice No.: e-Tender/2022/37 dated 23.08.2022, e-Tenders are invited by Divisional Railway Manager (Engg.), S. E.Railway, Kharagpur-721301 for and on behalf of the President of India for the following works before 15.00 hrs. on the date mentioned against items and will be opened at 15.30 hrs. Sl. No. & Tender No.; Description of work; Tender Value; Earnest Money : (1) E-KGP-South-31-2022; Civil Engineering works in connection with Jaleswar and Balasore: Improvement to Station Building & development of facade works under the jurisdiction of DEN (South)/ Kharagpur; ₹ 4,46,15,616.81; ₹ 3,73,100/-(2) E-KGP-South-32-2022; Rupsa-Betnoti-Bhanjpur: Closure of 3 Level Crossings (Level Crossing No. RB-9, RB-15 & RB-18) by providing connecting road to nearest Level Crossing No. RB-10, RB-16 & RB-19 respectively in Kharagpur Division under the jurisdiction of DEN (South)/Kharagpur. (2nd Call); ₹ 5,15,16,519.67; ₹ 4,07,600/-(3) E-KGP-WEST-13-2022; Howrah-Tata nagar Jn-TRR(P)-21.595 Tkm & Kharag pur-Tatanagar Jn-TFR-11.02 Tkm under the jurisdiction of DEN/West/Kharagpur; ₹ 1,76,25,355.05; ₹ 2,38,100/-. (4) E-KGP-West-14-2022; Supply, stacking, loading and unloading into any type of Railway Wagons of hard stone machine crushed track ballast of 50mm gauge for 55905 cum in ballast depot at Dhalbhumgarh Depot under the jurisdiction of DEN/West/Kharagpur; ₹ 9,54,63,378/-; ₹ 6,27,300/-. (5) E-KGP-WEST-15-2022; Galudih-Asanbani: Construction of 01 No. RUB (Road Under Bridge) in lieu of manned Level Crossing No. 129 (GQ/GD) under the jurisdiction of DEN/West/Kharagpur; ₹ 8,57,07,162.86; ₹ 5,78,500/-. Cost of Tender documents: 0.00 for each. Date of opening: 15.09. 2022 for each. Completion period of the work: 06 (Six) months for sl. no. 1; 12 (Twelve) months for sl. nos. 2, 3 & 5 and 09 (Nine) Months for sl. no. 4. Biddina start Date: From 01.09.2022 and upto 15.00 hrs. on 15.09.2022. Interested Tenderers may visit website www.ireps.gov.in for full details/description/specification of the Tenders and submit their bids online. In no case manual tenders for these works will be accepted. N.B. Prospective Bidders

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the share certificates no(s) 514 for 300 shares bearing distinctive no(s) 46650428 - 46650727 standing in the name(s) of CHHATTAR KUMAR GOUSHAL JT, RENU GOUSHAL in the books of M/s BAJAJ AUTO LIMITED, has/have been lost/misplaced and the advertiser have applied to the company for issue of duplicate share certificate in lieu thereof.

Any person(s) who has/have claim(s) on the said shares should lodge such claim(s) with the company's registrars and transfer agents viz Kfin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot no: 31-32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 within 15 days from the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares.

Date : 25.08.2022 Place: Mumbai

Name(s) of the shareholder(s) CHHATTAR KUMAR GOUSHAL **RENU GOUSHAL**

SALE NOTICE UNDER IBC, 2016 M/s. KONASEEMA GAS POWER LIMITED (KGPL) (In Liquidation) CIN: U40101TG1997PLC037013 Regd. Office: # Progressive Towers 6-2-913/914, Khairathabad, Hyderabad- 500004, Telangana part of Liquidation Estate by Liquidator U/s. 35 (f) of IBC, 2016 reg. 33(1) of IBBI (Liquidation Process), Regulations 2016. REF. | SALE OF ASSETS OF KGPL SITUATED AT RAVULAPALEM, Dr. BR AMBEDKAR Reserve KONASEEMA DIST (FORMER EAST GODAVARI), A.P. AS PER REGULATIONS 32 (a) to (d). **Increase** Price amount **A**mount Lot-A 445 MW Natural Gas based Combined Cycle Power Plant (P&M) compris-(Rs. Cr) (Rs.Cr) (Rs. Cr) ing of 2 Gas Turbines (Siemens, V94.2)-139.44 MW each + 2 HRSG + Steam Turbine (LMZ, Russia) - 166.60 MW, Land around 126.43 Acres, 281 5.00 2.00 Factory Buildings & all other equipment at plant site. Lot-B Land around 35 Acres- Sv. No. 366/1 S Yanam Village 0.52 0.03 Lot-C Land around 5.85 Acres Kothapeta Village, abutting power plant land 11.60 0.03 1.16 Sy.Nos. 7/1, 6/2B, 6/3B, 7/4 Kothapeta. and 36/2, Devarapalli. Lot-D KGPL Guest House Land (1.60 Acres - Sy.No.21/3) and Buildings 7.74 0.78 0.05 Vedireswaram Village, located nearer to Power Plant and NH-16. Date of e-Auction 09.09.2022 LOT-A 10 AM to 1 PM LOTS-B, C & D (2 PM to 5 PM) (With unlimited extension of 5 minutes each up to 8pm for each Lot) Interested applicants may refer relevant E-AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT (A) for Lot-A and

E-AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT (B) for Lots B,C & D as the case may be, with terms and conditions of online E-Auction, Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc., available

at https://nesl.co.in/ auction-notices-under-ibc/, www.konaseemapower.com Bid related documents shall be submitted through e-mail in the formats prescribed, followed by originals.

3. Last date of submission of EMD is 03.09.2022. 4. Interested applicant who has deposited EMD and requires assistance in creating login ID and password may contact the Office of the Liquidator @ 98490 39674 or authorized representative Mr. Vijaya Venkata Krishna @ 9491791079 or through email at liqkgp@gmail.com or Info@ksrfms.com

Liquidator has right to extend /defer /cancel and/or modify, delete any of the terms and conditions of E-Auction at his discretion in the interest of Liquidation Process and has right to reject any bid without any prior notice or assigning any reason whatsoever at any stage of the auction.

E-Auction shall be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" "WHATEVER THERE IS" and "NO RECOURSE" basis only Sd/- CA. SAI RAMESH KANUPARTHI (K S Ramesh), Liquidator (IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P00910/2017-2018/11510) Cell: 9849039674 Place: Hyderabad

krsnaa

KRSNAA DIAGNOSTICS LIMITED

Corporate Identity Number: L74900PN2010PLC138068 Registered and Corporate Office: S.No. 243/A, Hissa No. 6, CTS No. 4519, 4519/1, Near Chinchwad Station, Chinchwad, Taluka - Haveli, Pune - 411 019, Maharashtra. Telephone: +91 20 2978 0210/11/12; E-mail: investors@krsnadiagnostics.com;

LET'S DO GOOD... Website: www.krsnaadiagnostics.com

(Authorisation for Assignment valid up to 23.11.2022)

Address for Correspondence: Plot 6-B, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

NOTICE

Notice is hereby given that 12" Annual General Meeting ("AGM") of Krsnaa Diagnostics Limited ("Company") will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility on Tuesday, September 27, 2022, at 11:00 a.m. IST, in Compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Regulations"), as amended from time to time, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular(s) dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 (hereinafter referred to as the circulars') to transact the business that will be set forth in the Notice calling the

In compliance with the above-mentioned Circular(s), Notice of AGM and the Annual Report for FY 2021-22 will be sent electronically, in due course, to all those Members, whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or their respective Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.krsnaadiagnostics.com, BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com. Detailed procedure/instructions for attending AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting facility at the AGM will form part of the Notice of AGM. Members are requested to carefully read all the Notes as will be set out in the said Notice.

Members of the Company who have not registered their email addresses / Bank Mandates can register the same in your demat account, as per the process advised by your respective Depository Participant. Members are also encouraged to register their bank account details with the RTA/respective Depository

Participant(s) to receive the dividend, if and when declared by the Company, directly into the bank account through approved electronic mode of payment. Further details will be provided in the Notice of AGM.

Registered Office:

S. No. 243/A, Hissa No. 6, CTS No. 4519, 4519/1, Near Chinchwad Station, Chinchwad,

Pune 411019.

Place: Pune Date: August 25, 2022 For Krsnaa Diagnostics Limited

Nikhil Deshpande Company Secretary and Compliance Officer



SASTRA CENTER, Circule Office, Bareilly C-18/B, First Flour, DD Puram, Bareilly Ph: 0581-2520446 (Fax)

By Order of the Board of Directors

POSSESSION NOTICE

[Under Rules 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstructions of Financial Assets & Enforcement of Security Interes Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule - 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The Bank issued demand notices on the date mentioned against account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty day from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to borrowers and the public in general the undersigned has taken the Possession of property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rule on the date mentioned against each account. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property, and dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon. Detail of Properties where Possession has been taken is as follows:

N.	and Name of the Branch	13(2) of SARFESI ACT 2002	
1.	Borrower: M/s New India Shoes Center Proprietor/Mortgagor: Sh. Nasirullah S/o Hamid Ullah Guarantor/Mortgager: 1. Smt Idrish Bano W/o Nasirullah 2. Smt. Shalma W/o Nasirullah Guarantor: Mohd Rizwan S/o Nasirullah PNB, Kaccha Katra, Shahjahanpur	Rs. 30 03,711.44/- + intt & other charges	1. E Ham Anta Shai 213- Bou Moh 2. El Smt. mits. Regi Volu 4546 Hou: Nika Hafiz
2.	Borrower : M/S Rashmi	Rs. 15,21,825.15/-	1. E

Name & addresses of the Outstanding Amount and

Dt. Of Demand Notice u/s

Borrower/Guarantors Account

Description of the Immovable Properties Mortgaged

M Of Residential Property In the Name of Nasirullah S/c nidullah Measuring area 132.10 Sq mts. Situated at Moh a, Shahjahnpur, vide sale deed Registered with sub registral ihjahanpur. Book No. 01, Volume No-1165, on Pages No. -230 against Serial No. 4545 On Dated 18.09.1996 unded: East - House Jakariya, West : Gali Sarband, North halle ki PakkiSadak Va Nikas, South : House Babu

EM Of Residential Property In the Name of Smt. Idris Bano & :. Shalma Both W/o Mr. Nasir Ullah Measuring area 83.62 sq. Situated at Moh. Chamkani Shahjahanpur, vide sale deed qistered with sub registrar Shahjahanpur Book No. 01 ume No- 1165, on Pages No. 231-262 against Serial No. 16 On Dated 18.09.1996. Bounded: East - Kucha Sarband & use Mangal urf khudabaksh madumya Kharanja Sakriva as, West: House Mohd. Ahmad, North - Makan at Asgar, fiz Yusuf & Hikamatullah, South: House Mohd, Ahmad

Enterprises + intt & other charges Borrower/Partner/Mortga W.e.f. 01.06.2022 gor: Sh. Pradeep Pandey S/o Ram Sagar Pandey Borrower/Partner: 1. Smt. 23.08.2022 Rashmi Pandey W/o Pradeep Pandey 2. Sh. Shantanu Pandey S/o Pradeep Pandey

PNB, Kaccha Katra,

PNB, Kaccha Katra,

Shahjahanpur

Date: 25.08.2022

Shahjahanpur

EM Of Residential Property In the Name of Sh. Pradeer Pandey S/o Ram Sagar Pandey Measuring area 400 Sq mts Situated at village mauja Sarai Chhitauna Shahjahnpur, vide Notice dated 10.06.2022 sale deed Registered with sub registrar Shahjahanpur. Book No. & DATE OF SYMBOLIC | 01, Khand No- 435, on Pages No. 205-218 against Serial No. 4525 On Dated 17.10.1992. Bounded: East: Rasta 15ft. Wide West: Araji Garg Sahab Now Smt. HansMukhi, North: Arazi Shri SastriWeyar Pvt. Ltd. Sold today, South: Rasta 24ft Wide EM Of Residential Property In the Name of Pradeep Pandey S/o Ram sagar Pandey Measuring area 431,25 Sq mts Situated at Vill. Sarai Chhitauna Shahjahanpur, vide sale deed Registered with sub registrar Shahjahanpur, Book No. 01 Khand No-435, on Pages No. 219-236 against Senal No. 4526 On Dated 17.10.1992. Bounded: East: Kachcha Rasta 15ft wide, West: Arazi Garg Sahab & Bhagwati Prashad etc, North:

Borrower : M/s Arora Rs.14,72,647.46/-Enterprises + intt & other charges W.e.f. 01.06.2022 Proprietor/Mortgagor: Smt Honey Arora W/o Om Prakash Arora Guarantor: 1. Sh. Om 23.08.2022

Prakash Arora S/o Late Jagat Prakash Arora 2. Sh. Rohit Arora S/o Om Prakash Arora 3. Sh. Naman Arora S/o Om Prakash Arora

Khet Khasra No. 62 & 63, South : Arazi Smt. Renu Agarwal EM Of Residential Property In the Name of Smt. Hani Arora W/o Om Prakash Arora Measuring area 24.82 Sq mts. Situated at Moh. Mohammad Zai, Shahjahnpur, vide sale deed Registered Notice dated 09.06.2022 with sub registrar Shahjahanpur. Book No. 01, Zild No- 1179, on & DATE OF SYMBOLIC Pages No. 36-38 against Serial No. 2244 On Dated 26.07.1985 Bounded : East : Chabutra House Ram Jeevan lal, West Sarband Kharanja Nagar Palika, North: Apsara Press, South Kharanja Sarband

Place: Bareilly

Authorised Officer

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT [Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy

Date of Incorporation of Corporate Debtor 25/09/1969

Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF AJANTA OFFSET AND PACKAGING LIMITED PARTICULARS **DETAILS** NAME OF CORPORATE DEBTOR AJANTA OFFSET AND PACKAGING LIMITED

 Authority under which Corporate Debtor RoC-Delhi is Incorporated/Registered 4. Corporate Identity No. / Limited Liability L74950DL1969PLC005126 Identification No. of Corporate Debtor Address of the registered office & principal Madani Hall 1, Bahadur Shah Zafar Marg. office (if any) of Corporate Debtor New Delhi -110002 Date of closure of Insolvency 17/08/2022 Resolution Process 17/08/2022 (Copy of order was received Liquidation commencement date of Corporate Debtor on 18/08/2022 late evening) Name & Registration Number of Insolvency Satya Narayana Guddeti Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P00632/2017-18/11086 Professional acting as Liquidator Address and Email of the liquidator Add.: Plot No 23, First Floor, Durganagar Colony, Punjagutta, West Marredpally, Telangana- 500082 as registered with the Board Email: gsnhyd@rediffmail.com Add.: Flat No C S -14, C-Floor, Ansal Plaza. Address and e-mail to be used for Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010 correspondence with the liquidator Email: ip.ajantaoffset@gmail.com 11. Last date for submission of Claims 16/09/2022

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench, Court IV has ordered the commencement of liquidation of the Ajanta Offset And Packaging Limited on 17/08/2022.

The stakeholders of Ajanta Offset And Packaging Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 16/09/2022, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post, or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Satya Narayana Guddeti Liquidator of AJANTA OFFSET AND PACKAGING LIMITED Date: 25.08.2022 Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P00632/2017-18/11086 Place : Ghaziabad

Registered & Corporate Office Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz(East), Mumbai-400055. YES / BANK Website www.yesbank.in Email:-communications@yesbank.in CIN: L65190MH2003PLC143249 Rule - 8(1)} POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of YES BANK Limited under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice dated June 2. 2022, calling upon (1) M/s. R Ayush Enterprises ("Borrower") through its Proprietor Sh Ayush Bansal; (2) Mr. Ayush Bansal ("Guarantor"); (3) Mr. Ravindra Kumar Bansal "Mortgagor and Guarantor"); (4) Mrs. Poonam Bansal ("Mortgagor and Guarantor") to repay the amount mentioned in the said notice being Rs. 14,30,77,223.96 (Rupees Fourteen Crore Thirty Lacs Seventy Seven Thousand Two Hundred Twenty Three and Ninety Six

The Borrower and Guarantors having failed to repay the full amount, notice is hereby given to the Borrower, Guarantors & Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the 22nd day of August of the year 2022.

with effect from June 1, 2022 within 60 days from the date of the said notice.

Paise Only) due as on May 31, 2022 together with further interest and other charges thereon

The Borrower, Guarantors & Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the charge of YES BANK Limited for balance outstanding amount of Rs.14,30,77,223.96 (Rupees Fourteen Crore Thirty Lacs Seventy Seven Thousand Two Hundred Twenty Three and Ninety Six Paise Only) due as on May 31, 2022 and further The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act in

respect of time available, to redeem the secured assets. **DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES**

Sr. No.	Description of the mortgaged p	property	Boundary	Mortgagor
1.	Entire Built Up Free Hold Property bearing no. 33, Built on Land Measuring 131.66 Sq. Yards, With Roof/Terrace Rights up to Sky, Situated in the Layout Plan of National Defence Workers Co-Operative Housing Building Society Ltd., Presently Known as Shakti Vihar, Pitampura, Delhi - 110034.		East: Plot No. 34 West: Plot No. 32 North: Road 30 Ft. Wide South: 15 Ft. Wide Service Lane	Ravindra Kumar Bansal & Poonam Bansal
2.	Shop bearing Plot no – 141/2, On Ground Floor, Area Measuring 230 Sq. Ft., Situated at Gadodia Market, Khari Baoli, Delhi – 110006.	Wes North: 16	Shop No. 141/1 t: Shop No. 142 3 Ft. Wide Common outh: Shop No. 146	Poonam Bansal

Sd/- For YES BANK Limited Date: 22.08.2022 Vipin Chaudhary, Senior Vice President Place: New Delhi (Authorized Officer)

Regd. Off.: 781, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002. CIN.No. L24230CH1986PLC006897

Ind-Swift Ltd.

Ph. No. 0172-2638781/4680800 Fax No. 0172-2652242/2655406. Ind-Swift E-mail: companysec@indswift.com Website: www.indswiftItd.com NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM). REMOTE EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the

Company will be held on Wednesday, 21st September, 2022, at 11.30 AM (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other circulars issued from time to time (collectively referred to as "the Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), to transact the business as set out in the notice of the AGM

In compliance with the Circulars, the Annual Report 2021-22 including the notice of AGM, is being sent only through electronic mode to those members whose email IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent ("RTA") or respective Depository Participants ("DPs"). The Notice of AGM and the Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website at www.indswiftltd.com. websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evotingindia.com. The Company has engaged the services of CDSL as the authorised agency for

conducting of the AGM through VC/OAVM facility and for providing electronic voting ("e-voting") facility to its members, to exercise their votes through the remote e-voting and e-voting at the AGM. The manner of voting remotely by members holding shares in dematerialized form and physical form will be provided in the AGM notice. The Cut-off Date for determining the eligibility of members' or the purpose of

remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and evoting during the AGM is Wednesday, 14th September, 2022. Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the Cut-off Date may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members are advised to update their PAN, KYC (Address, Email ID, Mobile

Number, Bank Account Details, Specimen Signature, etc.) and Nomination details as mandated by SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB /P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, read together with circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021 to avoid freezing of their folios on or after April 1, 2023, as below: Members holding shares in physical form: to the Company's RTA- Alankit

Assignments Limited, in prescribed Form ISR -1 and other forms as per instructions mentioned in the form. The formats can be downloaded from the Company's website at http://www.indswiftltd.com/images/shareholderservices.pdf. Members holding shares in dematerialized form: to their respective Depository

Participants as per the procedure prescribed by them.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 15th September 2022 to 21st September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the 36th Annual General Meeting (AGM) to be held on 21st September, 2022.

For IND-SWIFT LIMITED

Date: 24/08/2022 Place: Chandigarh

Ginny Uppal Company Secretary

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ANAND PROJECTS LIMITED

Corporate Identification Number: L40109UP1936PLC048200 Registered Office: House No. 304, Ajadpura, Lalitpur-284403 (U.P) Tel: +91 9891067472 Fax: +91 120 2511389

Email ID: companysecretary@anandprojects.com, Website: www.anandprojects.com NOTICE OF 87th ANNUAL GENERAL MEETING,

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that: 1. The 87th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at

registered office of the Company situated at House No. 304, Ajadpura, Lalitpur-284403 (U.P) on Thursday, September 15th, 2022 at 11.30 a.m., to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated August Since the requirement of printing and dispatch of hard copy of annual report to the shareholders are dispensed with for listed entities who conduct their AGMs during the calendar year 2022 (i.e. till December 31, 2022) by SEBI vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2022/62 dated May 13th,

2022, therefore the Annual Report for the F.Y. 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The PDF copy of the Annual Report including the Notice convening the Annual General Meeting has been emailed to the members on August 24, 2022. The same are also available on the website of the Company at http://www.anandprojects. com/annual-reports.php. website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com A copy of the Annual Report including Notice of 87th AGM of the Company

can be obtained by writing to companysecretary@anandprojects.com.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date Monday, September 05th, 2022 may cast their vote

electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services Limited ("CDSL") from any place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that: 1. The Ordinary and Special Business (es) as stated in Notice of 87th AGM may be transacted through voting by electronic means.

2. The remote e voting shall commence on Monday, September 12th, 2022 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, September 14th, 2022 (5.00 p.m. IST). As the voting portal would be blocked after the voting

period is over, shareholders are requested to cast their votes during this

3. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Monday, September 05th, 2022. 4. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after emailing of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 05th, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at sandeeps@adroitcorporate.com However if a person is already

can be used for casting vote; Members may note that:a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be

registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password

allowed beyond the specified period; b) Once the vote on resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently;

c) The facility for voting through physical ballot shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote

d) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and e) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the

cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well

as voting at the AGM through physical ballot; The Notice of AGM is available on the Company's website http://www.anandprojects.com/notice-to-the-shareholders.php and also on the CDSL website https://www.evoting.com; g) In case of queries, members may refer to the Frequently Asked

Question ("FAQs") for members and e-voting user manual for members at the help section of http://www.evoting.com or call on toll free number 18002005533 or contact Mr. Rakesh Dalvi (Deputy Manager), Central Depository Services Limited ("CDSL"), 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 12th, 2022 to Thursday, September 15th, 2022 (both days inclusive) for the purpose of holding 87th Annual General Meeting of the Company.

For Anand Projects Limited

Place: Noida Date: August 24th, 2022 Surendra Kumar Sharma (Company Secretary)

CIN: L27109UP1985PLC006998 Regd. Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur-244901, U.P.

Corp. Office: 201 & 202, 2" Floor, Rattan Jyoti Building, 18, Rajendra Place, New Delhi-110008 Ph.: 011-47631025, 26, 27; E-mail: compliances@pmcfincorp.com website: www.pmcfincorp.com NOTICE OF 37[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO

PMC FINCORP LIMITED

BE HELD THROUGH VC, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOUSRE

NOTICE Is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of PMC Fincorp Limited ("the Company") will be held on Saturday September 17, 2022 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OVAM") to transaction the business asset out

together with Circular Nos. 20/2020 and 21/2021 dated May 5, 2020 and December 14, 2021 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted convening the Annual General Meeting ('AGM') due in the year 2022 through Video Conferencing ('VC') or Other Audio Visual Means ("OVAM"), without the physical presence of the members at a common venue till December 31, 2022, in compliance with the provisions of the Companies, Act 2013 ("Act"), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), and aforesaid MCA Circulars the AGM of the Company will be held through VC / OVAM. Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC/OVAM facility only (Which is being made available by the Company from NSDL), he details of which are provided by the Company in the Notice of the AGM.

The Ministry of Corporate Affairs MCA has, vide its Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 read

n accordance with the aforesaid MCA Circulars and Circular issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI) dated May 13, 2022, the Annual Report of the Company for the financial Year 2021-22 ("Annual Report") along with the Notice of the AGM has been sent on August 24, 2022 only by Electronic mode to those Shareholders whose email address are registered with the Company/Depository Participants as an Friday, August 19, 2022. The Annual Report including the Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.pmcfincorp.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com. Pursuant to the provisions of the Section 108 of the Act read with Rule20 of the Companies

(Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the listing

Regulations, the Company is providing the facility of remote e-voting to all the Shareholders, by

electronic means to enable them to cast their votes on all the resolutions proposed to be passed at

the AGM, using remote E-voting system as well as e-voting at the AGM (collectively referred as e-voting'). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited "NSDL") for providing the e-voting facility to the Shareholders remote e-voting period begins on Vednesday, September 14, 2022 at 9.00 a.m. (IST) and end on Friday, September 16, 2022 at 5.00 p.m. (IST) and the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. and shareholders will not be allowed to vote by remote e-voting beyond 5.00p.m. (IST)on September 16, 2022. Once of the shareholder has casted vote through remote e-voting, the hareholder shall not be allowed to change subsequently. Further, the Company has fixed Friday, September 09, 2022 as the "cut-off date" to determine the eligibility to vote by remote e-voting or evoting at the AGM. A parson whose name is recorded in the Register of Members of inthe Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as en the cut-off date, i.e. Friday, September , 2022 shall be entitled to avail facility of e-voting. Voting rights of the Members shall be in oportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date Eriday, September 9, 2022. The instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read the instructions in the Notice of AGM. The procedure for e-voting at the AGM is same as the procedure for remote e-voting. Only those Shareholders who will be present at the AGM through VC/OAVM facility and who would not have cast their caste by emote e-voting to the AGM and are otherwise not barred from doing so. Shall be eligible to vote though e-voting system at the AGM. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM and their presence shall be counted for the purpose of quorum, however such Shareholders shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

Shareholders who have still not registered their E-mail ID are requested to get their E-Mail ID In case shares Such Shareholders are requested to registered there E-mail ID with the Registrar

Appeal to Members to Registered their e-mail ID and KYC Details:

and Share Transfer Agent (RTA) of the Company viz. Indus Portfolio Private are held in physical mode

Limited by sending request to Company RTA on rs.kushwaha@indusinvest.com or the Company at Investorrelations@pmcfincorp.com. The said request be accompanied with Form ISR: I for KYC updation. Such Shareholders are requested to register their E-mail ID with relevant Depository

are held in Dematerialized mode

In case of any queries difficulties in registering the E-mall address, Shareholders may write to RTA at rs.kushwaha@indusinvest.com or to the Company at Investorrelations@pmcfincorp.com. Those physical shareholders who have not yet submitted Form ISR-I, ISR-2, SH-13/SH-14 are

requested to Submit the same to RTA/ Companies at earliest. Those shareholders who are holding shares in dematerialized mode are requested to ensure that aforesaid KYC details and nomination are updated with their depository participant. Those parsons who have acquired shares and have became members of the Company after the dispatch of Notice of the AGM by the Company and whose name separate in the Register of

members or Registered of beneficial holders as on the cut-off date i.e. Friday, September 9, 2022

shall view the Notice of the AGM on the Company website or on the website of NSDL. Such

persons may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in

however, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can cast his/her vote by using existing User id and password and by following the procedure as mentioned in the Notice of the AGM or by e-voting at the AGM n case of any assistance before or during AGM or any queries related to e-Voting members may efer the Frequency Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for hareholders available at the download section of <u>www.evoting.nsdl.com</u> or call on toll free no.: 1800-102O-99O/1800-224-430 or send at request to Ms. Pallavi Mhatra, Manager. NSDL, Email

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 10, 2022 to Saturday September 17, 2022 (both days Inclusive) for the 37° Annual General Meeting. By Order of the Board of Directors

Date: August 24, 2022 Place: New Delhi

FOR PMC FINCORP LIMITED

(Company Secretary)

Kailash

Chandigarh

financialexp.epa

(PR-510)

may regularly visit www.ireps.gov.in to

participate in all tenders.

न्यूनतम- १४.०

तापमान

मासम

जनसता 25 अगस्त, 2022

हिंगचित

स्पीति में सरकार के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने किया प्रदर्शन

कुल्लू: महंगाई , भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रदेश की जय राम सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल की जागो हिमाचल सद्भावना पदयात्रा स्पीति के मुख्यालय काजा में बुधवार को आयोजित की गई। इस पदयात्रा में विशेष तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने शिरकत की। कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी अनुराग शर्मा की अगुवाई में इस यात्रा को निकाला गया।

यूनियन वैंक 🕼 Union Bank S Anners Company

क्षेत्रीय कार्यालयः एससीओ 64-65, बैंक स्क्वायर, सैक्टर 17-बी, चंडीगढ़

[नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

चुंकि युनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(2) व 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि और उस पर ब्याज की अदायगी करने के लिए कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए को मांग सूचना जारी की गई थी।

कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं एवं सामान्य जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन के नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **कब्जा** ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए एतदद्वारा सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन राशि और उस पर ब्याज के लिए **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों /गारंटरों का ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्ति को मुक्त करवाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

नोटिस

की तिथि

राशि

जमा उस पर ब्याज

जमा उस पर ब्याज

संपत्तियों का विवरण

47 (11)							
बीओ: टेलीफोन एक्सचेंज,							
यमुना नगर	7						
उधारकर्ताः राधा कृष्ण कंस्ट्रक्शन	1						
प्रोपराइटर श्री साहिल आहूजा पुत्र सुरिंदर	-						

कर्जदार/गारंटरों

प्रतिभूतिः भूमि व भवन- शाहबाद में 15.03.2022 23.08.2022 30,61,110.65 रु. स्थित प्लॉट नंबर 277, वार्ड नंबर 10, मोहल्ला सैदान, शाहबाद मारकंडा, कुरुक्षेत्र- 136135, रकबा 205 वर्ग यार्ड में सुरिदर पाल (गारंटर)(संपत्ति

पाल पताः एसबीआई बैंक के सामने का मालिक) से संबंधित रिहायशी और सीमाबद्धः **पूर्वः** वीर भान और दयाल चंद + गली, पश्चिमः बुरिया चौक के समीप, छछरौली रोड, राम चंद और सुरिंदर पाल, उत्तरः राम चंद और राम नाथ सेठी, दक्षिणः सड़क + अन्य। जगाधरी, जिला, यमुनानगर, हरियाणा,

पिन कोडः 135001, गारंटरः श्री सुरिंदर पाल पुत्र चोखा राम, पताः मकान नंबर 248/10, मोहल्ला सैदान, शाहबाद, पिन कोडः 136135

बीओ: सेक्टर- 8, पंचकूला प्रतिभृतिः फर्म मेसर्स एसकेएम पोल्ट्रीज के नाम 18.05.2021 22.08.2022 उधारकर्ताः 1. मैसर्स एसकेएम पर गांव मौली, जिला पंचकूला में स्थित मेसर्स एसकेएम पोल्ट्रीज से संबंधित भूमि व पोल्ट्री इसके भागीदारों श्री रजनीश । भवन रकबा 29 कनाल 06 मरला धारक खेवट/खतौनी नंबर 429/531,532 (वर्तमान | गर्ग और श्रीमती ममता गर्ग, मकान में 493/577, 578) खसरा नंबर 88//9/3(0-9), 10/1 (7-11) 11(8-0), 20(8-0), 21(8-0)

नंबर 136, सेक्टर 9, पंचकुला, 🛮 89//16(8-0), 23 मिन (6-12), 24 मिन (7-11), 25(8-0), 95//3(8-0), 4 (8-0), 95//5(8-0)

हरियाणा-134109, 2. श्री रजनीश 89//23 मिन (8-0), 24 मिन (0-9), टुकड़े 14, 87 कनाल की भूमि में से 293/870 हिस्सा और सीमाबद्धः गर्ग, मकान नंबर 136 सेक्टर 9, पूर्व: अन्य की संपत्ति, पश्चिमः सडक, उत्तरः कृषि भृमि, दक्षिणः अन्य की संपत्ति। पंचकुला हरियाणा- 134109. 3. यह नोटिस सरफेसी अधिनियम 2002 दिनांक 18.09.2021 की धारा 13(4) के तहत पिछले नोटिस का स्थान श्रीमती ममता गर्ग, मकान संख्या लेता है और इसलिए कथित नोटिस को वापस लिया गया माना जाना चाहिए।

136, सेक्टर 9, पंचकुला हरियाणा- 134109 के माध्यम से।

दिनांक: 24.08.2022

स्थानः चंडीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी

सिस्केम (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ग्राम बारगोहाम, तहसील कालका, जनपद पंचकुला (हरियाणा) वेबसाइहः www.syschem.in, सीआईएनः L24219HR1993PLC032195

29वीं वार्षिक सामान्य बैछक, ई-बोहिंग तथा बही समापन जामकारी की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिस्केम (इंडिया) लिमिटेड के अंशधारकों की 29वीं वार्षिक सामान्य बैटक का आयोजन शुक्रवार 16 सितंबर 2022 को अपराहन 04.00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविध के माध्यम से, एजीएम स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए किया जाएगा। यह आयोजन, एमसीए परिपत्रों दिनांकित 05 मई 2020, 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 सेबी परिपत्र दिनांकित 12 मई 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (सूचीकरण विनियमावली) और कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अनुपालन में किया जाएगा। एजीएम का स्थल तहसील कालका, जनपद पंचकुला, बारगोदाम, हरियाणा, 134109 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को माना जाएगा। अनवरत बनी हुई कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखकर, कंपनी की 29वीं एजीएम का आयोजन केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 एवं 13 जनवरी 2021 (सामूहिक रूप में 'एमसीए परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांकित 12 मई 2020 एवं 15 जनवरी 2021 (सामृहिक रूप में 'सेबी परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम | 2013 ('अधिनियम') तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के लागू प्रावधानों के पालनानुपालन में है। इसके अतिरिक्त, एक जानकारी यह है कि सदस्यों को 29वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की वास्तविक प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपर्युक्तानुसार वर्णित परिपत्रों द्वारा संवितरित हो गई है। वार्षिक प्रतिवेदन तथा 29वीं एजीएम की सूचना, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.syschem.in पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों जहां कंपनी के अंश सूचीबद्ध हैं अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध होगी। समय–समय पर संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पिटत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक मतदानीकरण प्रणाली (ई–वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर अपना–अपना वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सदस्यो के मताधिकार, 19 अगस्त 2022 (कट-ऑफ तिथि) के अनुसार उनके द्वारा धारित कंपनी के समता अंशों के अनुपात के अनुरूप

ई—वोटिंग के अनुदेश, एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि निम्नलिखित बातों का अनुसरण करें:--क) एजीएमी की सूचना में निर्धारित व्यवसाय(यों) का लेन-देन, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम

ख) रिमोट ई—वोटिंग का प्रारंभ 13 सितंबर 2022 को प्रातः 09.00 बजे (भा.मा.स.) होगा।

ग) रिमोट ई—वोटिंग का समापन 15 सितंबर 2022 को सायं 05.00 बजे (भा.मा.स.) होगा। इस अवधि के दौरान, सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट डाल सकते हैं। इस अवधि के उपरांत, सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपने वोट नहीं डाले होंगे, वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के

घ) कोई व्यक्ति जो एजीएम सूचना के प्रेषण पश्चात कंपनी का एक सदस्य बनता है तथा कंपनी के अंश उपार्जित करता है और कट—ऑफ तिथि के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह कंपनी के आरटीए मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यटर सर्विसेज प्रा. लि., बीटल हाउस, 99, मदनगीर लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसुख दास मंदिर, दिल्ली—110 062 अथवा सीडीएसएल को एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं अनुक्रमांक प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि उक्त अंशधारक पहले से ही ई—वोटिंग हेत् सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए उसके विद्यमान प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। और यदि वह पासवर्ड भूल चुका है तो वह www.evotingindia.com पर उपलब्ध ''फॉरगोट युजर डिटेल्स/पासवर्ड'' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड पुनःनिर्मित कर सकता है।

ड.) सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उन्हें एजीएम में पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

🗖 च) भौतिक प्रारूप, अभौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले अथवा कंपनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं करा सके सदस्यों हेतु मतदान की प्रविधि, एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई गई है, जो कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। छ) ई—वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध करायी जाएगी तथा पहले अपने वोट नहीं डाल पाए एजीएम में उपस्थित होनेवाले

सदस्य, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय(यों) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य हालांकि एजीएम में उपस्थित तो हो सकते हैं, परंतु वे एजीएम में वोट

ज) श्री केंवलजीत सिंह एक व्यवसायरत् कंपनी सचिव (व्यवसाय प्रमाणपत्र सं. 5870) को, समुचित एवं पारदर्शी विधि के अंतर्गत ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच-पडताल करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। झ) परिणामों की घोषणा, बैठक के समापन से अडतालिस घंटों के अंदर की जाएगी। साथ ही घोषणा को कंपनी की वेबसाइट

(www.syschem.in), सीडीएसएल की वेबसाइट (www.cdslindia.com) पर डाला जाएगा और बीएसई लि. पर फाइलबद्ध किया जाएगा। इसे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एवं निगमित कार्यालय के सूचना–पट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। संकल्पों को, अपेक्षित संख्या अथवा वोटों के अधीन, एजीएम की तिथि अर्थात् 29 अगस्त 2022 को पारित हुआ माना जाएगा। सदस्य जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी तथा / अथवा बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया

का पालन करके उनका पंजीकरण कर लें। भौतिक धारण की स्थिति में:– रजिस्ट्रार तथा कंपनी के ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज लि. को बीटल हाउस, 99, मदनगीर स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसुख दास मंदिर, दिल्ली—110062 के पते पर अथवा beetalrta@gmail.com पर ईमेल द्वारा एक विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध-पत्र प्रेषित करें और उसमें ईमेल पते का पंजीकरण

करने हेत् निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराएं: (क) फोलियो नं, (ख) अंशधारक का नाम, (ग) अंश प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की प्रति, (घ) पैन कार्ड (स्वयं–सत्यापित) की प्रति, (ड.) आधार (स्वयं–सत्यापित) की प्रति। और बैंक खाता विवरण का अद्यतनीकरण करने की स्थिति में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरणों / प्रलेखों को उपलब्ध कराना आवश्यक है: (क) उस बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, (ख) बैंक खाता प्रकार, (ग) बैंक खाता संख्या, (घ) एमआईसीआर कोड नंबर (ड.) आईएफएससी कोड, तथा (च) प्रथम अंशधारक के नामोल्लेखन वाली निरस्तीकृत चैक की प्रति। अभौतिक धारण की स्थिति में:– कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा दी गई सलाह

के आधार पर निर्धारित प्रक्रियानुसार अपने डिमेट खाता में अपने ईमेल पते पंजीकृत करें।

यदि आपके पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न है अथवा आपको कोई पूछताछ करनी है तो आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (''एफएक्यू'') तथा ई–वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते |हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को एक ईमेल लिख सकते हैं। आप श्रीमती शिखा कटारिया, कंपनी की कंपनी सिचव से भी shikhakataria@syschem.in पर संपर्क कर सकते हैं।

एतद्द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की पंजिका एवं अंश अंतरण बहियां 10.09.2022 से लेकर के 16.09.2022 (दोनों दिवस सिमलित) तक 29वीं वार्षिक सामान्य बैटक के उद्देश्यार्थ बंद रहेंगी निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थानः चंडीगढ़

दिनांकः 25.08.2022

www.readwhere.com

कृते सिस्केम (इंडिया) लिमिटेड हस्ता./- (रंजन जैनं)

प्रबंध निदेशक

बारिश ने सलूणी घाटी में मचाई तबाही

मढ़ी नाले पर बने पुल का नामोनिशान मिटा, दस पंचायतों का सलूणी और तीसा से कटा संपर्क

एचआरटीसी की बस समेत चार बसें फंसी

धर्मशाला, २४ अगस्त (जनसत्ता)।

प्रदेश के चंबा में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जिले की सलुणी घाटी में हिमगिरी मार्ग पर शुक्राह के नजदीक मढ़ी नाले पर बीस वर्ष पहले निर्मित पुल मंगलवार रात को बाढ़ से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। भारी बारिश से पुल का नामोनिशान मिट जाने के बाद इलाके की दस से अधिक पंचायतों का सलणी और तीसा से संपर्क कट गया है। इससे बीस हजार के करीब आबादी प्रभावित हुई है और मढ़ी नाला पुल के बह जाने से पथ परिवहन निगम और निजी बसों समेत चार बसें फंस गई हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक इसी मार्ग पर सियूल नाले में पानी के बहाव से एक घराट भी बह गया है। कहा जा रहा है कि क्षेत्र में रात के समय हुई बादल फटने जैसी घटना से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। घाटी में लगातार हो रही बारिश के बीच हिमगिरी-सलुणी-तीसा

कार्यालय ग्राम पंचायत चनौता

विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी हि.प्र.

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत चनौता विकास खण्ड धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. द्वारा वित वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न कार्यों

के निष्पादन हेतु आवश्यकता अनुसार अधिकृत विक्रेताओं से मृहरबंद निविदायें डाक द्वारा आमंत्रण की

जाती है। निविदायें 25.07.2022 को अपराहन 12 बजे तक ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

निविदायें 23.08.2022 को अपराहन 2 बजे ग्राम पंचायत की निर्माण कमेटी व निविदादाताओं या इनके

अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेंगी। किसी कारण वश निर्धारित दिवस में

सामग्री का विवरण : 1, रेता क्रैशर ध्ला/अन्य, प्रति घन मीटर। 2, बजरी 20 एमएम क्रैशर, प्रति घन मीटर

बजरी 40 एमएम क्रैशर, प्रति घन मीटर। 4. बोल्डर पत्थर/सोलिंग, प्रति घन मीटर। 5. पत्थर (कट

स्टोन), प्रति घन मीटर, ६. पक्की ईंटें मिट्टी के भट्टे की, प्रति 1000 जम्बर। ७. शटरिंग/प्लेट/लकडी/लोहा,

प्रति वर्गमीटर एवं प्रति र्जिंग मीटर। ८. जेसीबी/ब्रेकर मशीन द्वारा कटिंग, प्रति घंटा/प्रति घन मीटर। ९.

इंटरलॉक टाईल 60, 40, 80 एमएम, प्रति नग। 10, साईन बोर्ड (विद राइटिंग), प्रति नग। 11, रास्ते वाली

टाईल सीमेंट, प्रति नग। 12. सरिया/वाईडिंग वायर/मेखें 8, 10, 12, 16 एमएम, प्रति किलो। 13. सोलर

लाईट, प्रति नग। १४, डस्टबीन ऑल टाईप, प्रति नग। १४, बैंच आल टाईप, प्रति नग। १५, मिक्चर, प्रति घँटा।

१६. जीआई पाईप आल टाईप, प्रति नग। १७. सामग्री दुलान (घोड़ों द्वारा, सीमेंट किराया सिविल सप्लाई स्टोर

धर्मपुर से पंचायत स्टोर, पंचायत स्टोर से कार्य स्थल तथा लोडिंग व अनलोडिंग), प्रति किलोमीटर, प्रति बैंग।

नियम व शर्तै : १. निविदादाता के पास अपनी पंजीकरण पैन संख्या टिन/जीएसटी नं. होना आवश्यक है। २

ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से हस्ताक्षरित एम-फार्म जमा करवाने होंगे। एम-फार्म उपलब्ध न

करवाने के स्थिति में सामग्री संबंधी रॉयल्टी वर्तमान में मृ. 60/- रूपये प्रति धन मीटर के हिसाब से काटी

जायेगी। 3. सभी दरों का लेन-देन सरकार के प्रावधानों के अनुरूप होगा। 4. दरें अंकों व शब्दों दोनों में लिखी

होनी चाहिए। ५. निर्माण सामग्री कार्य स्थल /सडक तक उपलब्ध करवानी होगी। ६. पारित निविदादाताओं

को मृ. 20000/- रूपये अग्रिम /सुरक्षित धरोहर राशी के रूप में ग्राम पंचायत के पास जमा करवाने होंगे।

ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्राधिकार में एक ही मृत्य देय होगा व अस्वीकृत सामग्री की अदायगी देय नहीं

होगी। ८. निविदादाता यदि सामग्री आपूर्ति समयानुसार नहीं कर पाता है तो उसकी गत समय में दी गई

सामग्री की देय राशी का भूगतान नहीं किया जायेगा और न ही अग्रिम /सुरक्षित राशी वापिस होगी। 9. किसी

भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने समान दर रहने की स्थिति में एक या एक से

अधिक निविदादता(ओं के लिए कार्य आदेश निर्गत करने सामग्री की गुणवत्ता के चयन तथा निविदायें किसी

भी समय रद्द करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत /विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। 10. सामग्री लेने का

अन्तिम मृत्य /निर्णय विभाग की जस्टीफिकेशन में परित निविदादाता के साथ नेगोसिएशन अनुसार

मोट : निविदादत को अपने जीएसटी नं, /पैन संख्या टिन नं, बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, फोन नं. की

Ind-Swift Ltd.

Regd. Off.: 781, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002.

CIN.No. L24230CH1986PLC006897

Ph. No. 0172-2638781/4680800 Fax No. 0172-2652242/2655406.

E-mail: companysec@indswift.com Website: www.indswiftltd.com

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM),

REMOTE EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the

Company will be held on Wednesday, 21st September, 2022, at 11.30 AM (IST)

through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in

compliance with General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No.

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the

Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other circulars issued from

time to time (collectively referred to as "the Circulars") and in compliance with the

provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations

& Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), to transact the

In compliance with the Circulars, the Annual Report 2021-22 including the notice

of AGM, is being sent only through electronic mode to those members whose e-

mail IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent ("RTA") or respective

Depository Participants ("DPs"). The Notice of AGM and the Annual Report

2021-22 will also be available on the Company's website at www.indswiftltd.com,

websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange

of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and

on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at

The Company has engaged the services of CDSL as the authorised agency for

conducting of the AGM through VC/OAVM facility and for providing electronic

voting ("e-voting") facility to its members, to exercise their votes through the

remote e-voting and e-voting at the AGM. The manner of voting remotely by

members holding shares in dematerialized form and physical form will be

The Cut-off Date for determining the eligibility of members' or the purpose of

remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-

voting during the AGM is Wednesday, 14th September, 2022. Any person who

becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding

shares as on the Cut-off Date may obtain the login ID and password by sending a

Members are advised to update their PAN, KYC (Address, Email ID, Mobile

Number, Bank Account Details, Specimen Signature, etc.) and Nomination

details as mandated by SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB

/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, read together with circular

SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021,

Members holding shares in physical form: to the Company's RTA- Alankii

Assignments Limited, in prescribed Form ISR -1 and other forms as per

instructions mentioned in the form. The formats can be downloaded from the

Company's website at http://www.indswiftltd.com/images/shareholder-

Members holding shares in dematerialized form: to their respective Depository

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013

and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and

Share Transfer Books of the Company will remain closed from 15th September,

2022 to 21st September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the 36th

Annual General Meeting (AGM) to be held on 21st September, 2022.

to avoid freezing of their folios on or after April 1, 2023, as below:

स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी निविदा फार्म के साथ सलंबन करें।

business as set out in the notice of the AGM.

https://www.evotingindia.com.

provided in the AGM notice.

request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

18. टैक्टर/ जीप द्वारा इलान, विवरण- प्रति फेरा/किलो मीटर, मात्रा - प्रति क्विंटल

बैठक स्वगित हो जाती है तो अगले दिन या कमेटी द्वारा निर्धारित बैठक में निविदायें खोली जायेंगी।

भूस्खलन से मणिमहेश यात्रा फिर हुई प्रभावित

भरमौर के प्रंघाला में भूरखलन के कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। जिससे मणिमहेश यात्रा फिर से प्रभावित हुई। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने युद्धस्तर पर मार्ग बहाली का कार्य शुरु कर रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को निकाल लिया लेकिन इस स्थान पर भूस्खलन व पत्थर ि गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। लिहाजा जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए मणिमहेश यात्रियों से जोखिम न लेने की अपील की हैं। सलूणी के अधिशासी अभियंता दीपक भाटिया का कहना है कि पानी के बहाव के चलते सलूणी-हिमगिरी मार्ग पर मढ़ी नाला के पुल बहने की पृष्टि करते हुए कहा है कि भूस्खलन के कारण विभाग को भारी नुकसान पहुंचा है।

मार्ग पर डियूर खड्ड में पानी के बहाव से पुल को उत्पन्न हुए खतरे के दस दिन बाद ही गाड़ियों के लिए बहाल किया था, मगर अब सुरनाल व पटोलू में भूरखलन के चलते भड़ोग से आगे यह संपर्क फि र अवरुद्ध हो गया है।

इधर, हिमगिरी सड़क पर सियुल खड़ू में तेज बहाव में एक घराट भी बह गया है।

मनाली में भजोगी, नसोगी नाले में फिर आई बाढ़, प्रवेशद्वार की बही सड़क

कुल्लू: मनाली के भजोगी व सियाल नाले में बाढ़ आने के कारण एक बार फिर मनाली के प्रवेशद्वार की संडक बह गई है। मंगलवार रात करीब 11 बजे तेज बारिश से मनाली में नालियां पानी से लबालब भर गई और आधा घंटा हुई इस तेज बारिश से भलोगी व नसोगी दोनों नालों में आई बाढ़ ने फिर नुकसान कर दिया। बाढ़ के कारण आया सारा

मलबा वोल्वो बस स्टैंड में जा पहुंचा। इस कारण सडक सहित मनाली बस अड्डा को भारी नुकसान हुआ है। इस बार बरसात में इन नालों में पांच बार भारी बाढ़ आई। पुलिस स्टेशन के पास नाला तंग होने व मलबे से भरने के कारण

पानी सड़क में आ जाता है। जिस कारण सड़क को नुकसान पहुंचता है। पिछली बार भी भारी नुकसान हुआ लेकिन विभाग ने सबक नहीं सीखा। सड़क बनाने का कार्य शुरु तो कर दिया लेकिन नाले के पानी की सही निकासी करना उचित नहीं समझा। टीडीसी के धन से इस सड़क का काम शुरु हो गया था। ठेकेदार ने भरान भी कर दिया था अब कंकरीट की तैयारी थी लेकिन कंकरीट करने से पहले ही नाले में फिर से बाढ़ आ गई और सडक का हिस्सा फिर नाले के रूप में बदल गया। मनाली के लोगों का कहना है कि जब तक नालों का तटीयकरण नहीं हो जाता तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। उधर, एसडीएम मनाली डा . सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि रात को भारी बारिश होने से नालों में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से रांगड़ी में सड़क बह गई है और वोल्वो बस स्टैंड भी मलबे से भर गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से लगभग छह लाख का नुकसान

हुआ है। जल्दी ही सड़क की हालत सुधारी जाएगी। राजधानी लौटे आनंद ने सोनिया गांधी के साथ मतभेदों को खुलकर स्वीकारा

शिमला, २४ अगस्त (जनसत्ता)।

बीते दिनों अपनी कथित अनदेखी और अपमान से आहत होकर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए गठित संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस को झटका देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जी-23 समूह के सदस्य आनंद शर्मा ने आज, बुधवार को राजधानी पहंच कर सोनिया गांधी के साथ मतभेदों को स्वीकार करने के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का गुणगान किया।

उन्होंने कहा, कुछ बातें है जो मेरे और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच है। मैं सोनिया गांधी का सम्मान करता हं। लेकिन पार्टी को लेकर कई नड्डा को दी शुभकामनाएं

उन्होंने कहा कि नड्डा उनसे उम्र में छोटे है वह दोनों एक ही विवि में पढे हैं। हिमाचल छोटा सा राज्य है। आबादी व क्षेत्रफल के हिसाब से भी हम कहीं नहीं ठहरते हैं। लोकसभा में संख्याबल नहीं हैं। इसके बावजूद इस प्रदेश का कोई नेता किसी पार्टी के उच्चतम पद पर चला जाए तो यह ख़ुशी की बात हैं। उनकी नड्डा के लिए शुभ कामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अब नया दौर आ गया है। पहले भी मतभेद होते थे, लेकिन तब कटूता के लिए कोई स्थान नहीं था।

विषय और चिंताए हैं। हमारा कर्तव्य है कि अगर कुछ विषय आए या कुछ चिंताए हैं तो पार्टी के नेतृत्व को उससे अवगत कराया जाए। यह मतभेद यहीं तक सीमित है।' उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस को

मजबूत करने के लिए ज्ञान भी बांटा और कहा कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए अनुभव का कोई विकल्प नहीं हैं। यह संतुलित मिश्रण

है जो विजय की ओर ले के जाता है। अनुभव और युवा का जोश व उनकी उम्मीदें जब दोनों साथ चलती है तो कामयाबी मिलती। उन्होंने कहा. उनकी सोच है कि कांग्रेस को हिमाचल में ही नहीं देश में पुनजीर्वित करने के लिए कांग्रेस की विचारधारा का लोगों में प्रसार हो, लोग इससे जुड़े उसके लिए सामृहिक सोच और सामृहिक निर्णय की जरूरत हैं।

इस बार हिमाचल में भी बदलेगा रिवाज, कुल्लू के ढालपुर में बोले जय राम

कुल्लू, २४ अगस्त (जनसत्ता)।

ग्राम पंचायत चनौता

'प्रदेश में भी इस बार देश के अन्य राज्यों की तरह रिवाज बदलेगा और फिर से भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी।' यह कहना है मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का। आज, बुधवार को वह कुल्लू के ढालपुर में राज्य स्तरीय गृहिणी सुविधा समारोह में लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक-एक बार भाजपा–कांग्रेस की सरकार बनने का रिवाज बदला है और फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व मणिपुर में भी फिर से भाजपा की सरकार बनी है।

उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी कहते हैं कि मुख्यमंत्री लोगों को एकत्र कर कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने कार्य किया और आगे भी करेंगे. महिलाओं

अगले महीने दिल्ली-शिमला

के बीच दोबारा शुरू होंगी

हवाई उड़ानें: धीमान

करीब ढाई साल के अंतराल के

उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। इस

आज यहां दिल्ली-शिमला-दिल्ली

एलायंस एयर अथारिटी के साथ

की और राज्य में उड़ानों के संचालन

फिक्स्ड विंग एयर क्राफ्ट एटीआर42

हिमालयन एक्सप्रेसवे लिमिटेड

शुद्धिपत्र

प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में चंडीमंदिर

ट्रोल प्लाजा जोकि Ch.51.400 पर स्थित

है, के लिये 01.09.2022 से 31.08.2023

31.09.2023 के स्थान पर **01.09.2022**

सि 31.08.2023 पढ़ी जाए। शेष यथावत

दिनांक 23.08.2022 को जनसत्ता

–600 उपयोग किया जाएगा।

संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

शिमला, 24 अगस्त (जनसत्ता)

को भी सशक्त किया। हर घर में

महिलाओं को योजना का लाभ मिल है। हमारी योजनाओं से विपक्ष के लोगों को भी लाभ मिला है। जिस कांग्रेस सरकार ने 40 साल तक सत्ता में राज किया है आज देश के गिने चुने राज्यों में है।वहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा से अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। चुनावों के समय नेताओं का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि अनशासनहीनता

करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुख्यमंत्री ने कुल्लू से प्रदेश भर के नेताओं को संदेश दिया

उतराला-होली सडक निर्माण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी धर्मशाला, २४ अगस्त (जनसत्ता)।

कांगड़ा जिले में एक लंबे अरसे से लंबित पड़ी उतराला-होली सड़क निर्माण परियोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के शिमला स्थित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। इसकी जानकारी देते हुए वन, खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया बुधवार को धर्मशाला में कहा कि इस सड़क के निर्माण कांगड़ा और चंबा जिलों की दूरी कम होगी और लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि धर्मशाला क्षेत्र में वन अधिकार कानून (एफआरए) के तहत अनुमति हासिल होने के बाद 43 परियोजनाओं के लिए संबंधित

है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखं। विभाग ने निविदा जारी कर दी हैं। सरकार को फोरलेन प्रभावित किसानों

मंडी, 24 अगस्त (जनसत्ता)।

किसानों की अनदेखी जय राम सरकार को महंगी पड़ेगी।' यह कहना है भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बेली राम कौंडल व संयोजक जोगिंदर वालिया का। आज, बुधवार को मंडी मे पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जय राम सरकार दर्जनों बार मंत्री स्तरीय सब कमेटियों की बैठक के बाद हमेशा यही कहती आई है कि वो फोरलेन से प्रभावितों किसानों के बारे में चिंतित एवं संवेदनशील है। लेकिन चार गुणा मुआवजा के

नीति लगातार अपना रही है।

धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 4 साल 'फोरलेन प्रभावित लाखों पहले. अक्टबर 2018 में मंत्रिमंडल के सदस्य गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। तब से सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है। वहीं पहली अप्रैल 2022 को मंडी में अन्य नई कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में राकेश पठानिया व गोविंद ठाकुर ने प्रभावित किसानों को आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों के अंदर किसानों के हक में फैसला किया जाएगा।

एनएच प्रभावित अध्यक्ष प्रशांत मोहन ने कहा कि 17 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्य मंत्रिमंडल कमेटी की बैठक शिमला में की गई। जिसमें अब बहाने बाजी की जा रही है। वहीं फोरलेन समन्वय समिति पधर-मंडी के अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि पधर-मंडी में भूमि अधिग्रहण के लिए अवार्ड की राशि उन्हें मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सर्कल रेट कम कर दिया है। जो किसानों के साथ धोखा है। कोडियों के भाव में उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा जो किसानों के साथ मजाक है।

की अनदेखी पडेगी महंगी: कौंडल

बाद छह सितंबर से दिल्ली और शिमला के बीच दोबारा से हवाई बावत मुख्य सचिव आरडी धीमान ने वायु मार्ग पर फिर से हवाई उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए आभासी माध्यम से बैठक आयोजित धीमान ने कहा कि लगभग ढाई साल बाद 6 सितंबर से दिल्ली से शिमला के लिए उड़ानें दोबारा शुरू बारे आनाकानी एवं टालमटोल की

करने के लिए एलायंस एयर के उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों से फोरलेन संघर्ष समिति व भूमि अधिग्रहण मंच अपनी आवाज् उठाता रहा लेकिन आने वाले दिनों में प्रभावित लाखों किसानों की अनदेखी आने वाले चुनावों में जय राम सरकार को मंहगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में आने वाले पांच सितंबर को छिह जिलों मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, तक संशोधित यूजर दरों को अनुमोहित किया है। इस्में तिथि 01.09.2022 से कांगड़ा, सोलन व शिमला में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा इस दौरान प्रभावित किसान रैलियां निकाल कर सरकार के खिलाफ

इस अवसर पर कोटली-मंडी

Chandigarh

For IND-SWIFT LIMITED Date: 24/08/2022 Place: Chandigarh

Participants as per the procedure prescribed by them.

Company Secretary

Ginny Uppal